



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 16 पटना, बुधवार, 16 वैशाख, 1931 (श०)
6 मई, 2009 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०एन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 3-4	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निगरानी विभाग

अधिसूचना

24 अप्रैल 2009

सं० नि०वि०स्था०-122/06 (खण्ड-1।)-1468—निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 964, दिनांक 25.03.08 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त वरीय लोक अभियोजक/जिला विधि सलाहकार, श्री ध्रुव कुमार पाण्डेय की सेवाएँ, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना में एक वर्ष 08.03.2009 तक के लिये नवीकृत थी। विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर पुनः उनकी सेवा दिनांक 09.03.09 से 30.11.09 तक के लिये भूतलक्षी प्रभाव से नवीकरण की जाती है।

2. इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में नवीन अनुबंध पर पुनः हस्ताक्षर समर्पित करना होगा।
3. इसमें सरकार का आदेश प्राप्त है।
4. अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० जैन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 7-571+10-डी०टी०पी०।

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वार्षिक-कर विभाग

कार्यालय आदेश
25 फरवरी 2009

सं० 5/EHI/904/08-489—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) बिहार, पटना के 3/अनु०/06 का० 5311, दि० 21 अगस्त 2008 क्रमांक 20 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री दिनेश कुमार, पिता स्व० सत्यदेव मिश्र, भूतपूर्व पदचर, वार्षिक-कर विभाग, आवास सं० 76, आर. ब्लॉक, पटना को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान —3050—75—3950—80— 4590 में अनुमान्य अन्य देय भत्तों के साथ बिल्कुल अस्थायी रूप से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए इन्हें वार्षिक-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०), पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 3. कार्यभार ग्रहण करने के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर वार्षिक-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल के कार्यालय में दाखिल करना होगा।
 4. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र तथा आय, जन्म तिथि, संबंधी प्रमाण—पत्र उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।
 5. कार्यभार ग्रहण करते समय यह घोषणा—पत्र भी देना होगा कि वे विवाह के लिए न दहेज देंगे और न लेंगे।
 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय कारण पृच्छा की सूचना देते हुए बर्खास्त किया जा सकेगा।
 7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०— 11946 दि० 30.11.1984 की कंडिका (3) के अनुसार श्री दिनेश कुमार को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मृतक के परिवार के भरण—पोषण के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। इनकी अवहेलना होने पर इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही परिलब्धियों का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।
 8. दि० 1.09.2005 के प्रभाव से पेंशन की नई स्कीम लागू है, जो इनके मामले में भी समानरूप से लागू होगी।
- चूँकि इनकी नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जाती है और इस हेतु कम्प्यूटर टंकण की योग्यता को अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए, इन्हें नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर ही अपेक्षित टंकण गति हिन्दी/अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा प्राप्त करना होगा। इस योग्यता की उपलब्धि नहीं होने पर इन्हें चतुर्थवर्गीय पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।
- उपरोक्त सेवा शर्तों की निगरानी का दायित्व वार्षिक-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०) पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल, पटना की होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ह०—अस्पष्ट,
वार्षिक-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
(संग्रहालय निदेशालय)

अधिसूचना

2 मार्च 2009

सं० 25-सं०/वि.2-18/2000-59—“बिहार रिसर्च सोसाइटी (अधिग्रण) अधिनियम 2007”, की धारा— 3(1) एवं 3(2) के आलोक में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में निबन्धित बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाता है। अधिग्रहण की तिथि से, बिहार रिसर्च सोसाइटी; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (संग्रहालय निदेशालय) के नियंत्रणाधीन पटना संग्रहालय, पटना के शोध एवं प्रकाशन प्रभाग के रूप में निहित हो जायेगी और इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर निदेशक, पटना संग्रहालय होंगे।

“बिहार रिसर्च सोसाइटी (अधिग्रण) अधिनियम, 2007” की धारा— 3(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की तिथि से, बिहार रिसर्च सोसाइटी की सभी आस्तियाँ एवं दायित्व तथा इसकी चल-अचल सम्पत्ति, बैंक जमा, सभी संकलित पुस्तकें आदि अधिग्रहण की तिथि से पटना संग्रहालय में अन्तर्गत और निहित हो जायेंगी। ऐसी किसी भी सम्पत्ति को सरकार को अभ्यर्पित करने की नोटिस से इन्कार करने अथवा अनुपालन में असफल रहने की स्थिति में विभाग सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2009

सं० को०प्र०/विविध-22/07-2433/वि०(2)—जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपेरेशन अंचल, सिंचाई भवन, पटना, जो पूर्व में सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से संबद्ध था, को अगले वित्तीय वर्ष 2009-10 से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से संबद्ध किया जाता है। उक्त कार्यालय का संपूर्ण सरकारी कार्यों (भुगतान सहित) का निष्पादन अगले वित्तीय वर्ष 2009-10 से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूनीश चावला,
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 7-571+500-डी०टी०पी०।